



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2017/आषाढ़ 12, 1939

No. 1835]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2017/ASADHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2017

**का.आ. 2065(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 धन के परन्तुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि धारा 269 धन के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये मार्दर्शक सिद्धांतों के अनुसार बैंककारी कम्पनी और सहकारी बैंक की ओर से कारोबार संपर्की द्वारा प्राप्ति;
- (ख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये प्राधिकरण के अनुसरण में बैंककारी कम्पनी और सहकारी बैंक की ओर से सफेद स्तर स्वचलन गणक मशीन प्रचालक द्वारा खुदरा बाजार स्रोत से प्राप्ति;
- (ग) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, (2007 का 51) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये प्राधिकरण के अनुसरण में पूर्व-संदत्त संदाय उपकरण के जारीकर्ता द्वारा अभिकर्ता से प्राप्ति;
- (घ) प्रत्यय कार्ड जारी करने वाली कम्पनी या संस्था द्वारा एक या अधिक प्रत्यय कार्ड के सम्बन्ध में जारी किए गये बिल के विरुद्ध प्राप्ति;
- (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (17अ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न होने वाली प्राप्ति।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 को लागू हुई समझी जायेगी।

अधिसूचना सं. 57/2017/फा. सं. 370142/10/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2017

**S.O. 2065(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the proviso to section 269ST of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that the provision of section 269ST shall not apply to the following, namely:—

- (a) receipt by a business correspondent on behalf of a banking company or co-operative bank, in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India;
  - (b) receipt by a white label automated teller machine operator from retail outlet sources on behalf of a banking company or co-operative bank, in accordance with the authorisation issued by the Reserve Bank of India under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
  - (c) receipt from an agent by an issuer of pre-paid payment instruments, in accordance with the authorisation issued by the Reserve Bank of India under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
  - (d) receipt by a company or institution issuing credit cards against bills raised in respect of one or more credit cards;
  - (e) receipt which is not includible in the total income under clause (17A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.
2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2017.

[Notification No. 57 /2017/F. No. 370142/10/2017-TPL]

SALIL MISHRA, Director (Tax Policy &amp; Legislation)